


1288

935000 | Kanke

1156



झारखण्ड JHARKHAND

106112



नियम 21 के अधीन ग्राहक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 या 1 क से 11 को अधीन यथावत स्टाम्प-सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुख या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं) 23 अवर निबंधन कार्यालय राँची क्षेत्र में



Moh Fuz A Cam  
02/03/2013

Under & Under का  
Pan no का प्रमाण  
दिखा गया।

अवर निबंधक  
राँची कार्यालय  
02/03/13


Stamp = 3740/-

Valution Fee etc - 27500/- विक्रय-पत्र

यह विक्रयपत्र आज दिनांक 02 / 03 / सन् 2013 ई. को इस प्रकार सम्पन्न हुआ।


BI = 28050.07 विक्रेता का नाम एवं पता :- इमरानुल हक, पिता स्व० अब्दुलहक लारी को (2). महफूज आलम, पिता स्व० मंजूर आलम, दोनों जाति मोमीन (अंसारी), पेशा व्यापार, निवास स्थान ग्राम बड़ागाई, थाना सदर, जिला राँची, राज्य-झारखण्ड। राष्ट्रीयता-भारतीय-नागरिक

Imranul Haque  
02/03/13



R. Aga  
पता दर्शित करने से  
दिले गए हैं।

02/03/13



12777 08/02/13  
 No. 374001  
 Sanjeev Kumar  
 25000A10000A500X4100X4  
 Ranchi



Imranul Haque

02/03/2013



श्री Imranul Haque  
 पिता/पति Lt. Abdul Haque Lari  
 Bagai Sade के Momin (Ansaari) पेशा  
 Ranchi के निवासी  
 Business के व्यवसाय के प्रकार नामा  
 सं०.....20.....के पते/पते लेख कारियों या  
 दावेदारों में से एक श्री.....के प्रतिकर्ता हैं ने  
 सं० 08103113 के पते/पते 10 या  
 अपराह.....में विबंधन के लिए पेश किया।



अवर निबंधक  
 रांची उद्योग क्षेत्र

02/03/13



05AA 347002

2

2. क्रेता का नाम एवं पता :- इस्टर्न इस्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, प्रधान कार्यालय-म०सं० 2, मिहिर पथ, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना-1, राँची स्थित कार्यालय-1623/ए०, कृष्णानगर, बुटी रोड, थाना सदर, जिला राँची, (झारखण्ड) द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार, पिता स्व० नन्द किशोर प्रसाद, जाति कायस्थ, पेशा ब्यापार, निवास स्थान 502, शरन विहार अपार्टमेन्ट, जी.डी. मिश्रा पथ, न्यू पाटलीपुत्र कालोनी, थाना पाटलीपु, जिला पटना, राज्य बिहार। PAN No AADCE1004E
- राष्ट्रीयता-भारतीय-नागरिक।

M. de Foz A. L.  
02/03/2012

3. लेख्य-प्रकार - विक्रय-पत्र (सेल-डीड) हमेशा के लिए।
4. लेख्य-मुल्य - मोवलिंग 9,35,000/- (नौ लाख, पैंतीस हजार) रूपये मात्र।
5. नाम राजस्व पानेवाला - झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी अंचल कार्यालय, काँके, सालाने मालगुजारी 17 रूपये मात्र अलावे शेष।

Imranul Haque  
02/03/2012



झारखण्ड JHARKHAND

A 531985

3

6. विक्री वाली भूमि का विवरण :- मवाजी रकवा 34 (चौतीस) डिसमिल जमीन, हकीयत, रैयती, कायमी, दखली वो खरीदगी वाके मौजा ओएना, थाना-पिठौरिया, थाना नम्बर-46, जिला-राँची, अंदर खेवट नं० 3/1, खाता नम्बर-1, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वो सब रजिस्ट्रार मोकाम राँची के अधीन है।

खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकवा	खरीदगी रकवा	मध्ये रकवा	दर्जा जमीन
01	308	71 डि०	34 डि०	34 डि०	दोन

कुल रकवा चौतीस डिसमिल जमीन क्रेता के साथ विक्री कर रहें हैं।  
जिकसा चौहदी निम्नलिखित है :-

- चौहदी -


- उत्तर : प्लॉट नं० 310  
दक्षिण : प्लॉट नम्बर 305, 306, एंव 307  
पूरब : प्लॉट नं० 387 एंव 388  
पश्चिम : प्लॉट नं० 308 का भाग

Mohit Singh A L

02/03/2013

Imran Haque

02/03/2013



झाखण्ड JHARKHAND

A 531987

4

उक्त जमीन में रास्ता नहीं हैं।

विदित हो कि उपर लिखे स्ताम्भ 06 में वर्णित भूमि आर. एस. खतियान में बकास्त मालिक लगान पाने वाला दुबराज सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत 1. केदार नाथ सिंह, पिता डोमन सिंह भर्सेस 2. दुबराज सिंह, पिता डोमन सिंह वो 3. भगवती कुवर, पति डोमन सिंह ने उक्त खाता के प्लॉटों को बटवारा के लिए स्पेशल सब जज रांची के न्यायलय में पार्टीशन हेतु पार्टीशन सूट फाइल किये जिसका पार्टीशन सूट नम्बर 20 आफ 1949 दिनांक 08-03-1949 ई० है। जिसके अनुसार प्लॉट नम्बर 308 में उक्त विक्री वाली भूमि रकवा 34 डिसमिल जमीन केदार नाथ सिंह के हिस्से में मिला जिसपर वे दखलकार होकर अपने पीछे अपने एक मात्र पुत्र मंगल सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। पिता के मृत्यु के बाद मंगल सिंह उक्त भूमि पर दखलकार हुए और दखलकार रहते हुए उक्त 34 डिसमिल जमीन को एक विक्रयपत्र रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा विक्रेतागण ईमरानुल हक, पिता स्व० अब्दुल हक लारी वो 2. महफूज आलम, पिता स्व० मंजूर आलम दोनों का निवास स्थान ग्राम बड़ागाई, थाना सदर, जिला रांची, के साथ विक्री कर दिये। जिसका दस्तावेज नम्बर 5369 दिनांक 04-05-2012 ई० है जो जिला अवर निबंधन पदाधिकारी राँची के कार्यालय में निबंधित हुआ है जो रजिस्ट्री आफिस रांची के बुक नम्बर 1, भोल्युम नम्बर 214, पेज नम्बर 577 से 598

Mohfooz A Khan  
02/08/2013

Imranul Haque  
02/03/2013



झारखण्ड JHARKHAND

5 A 531988

पर दर्ज है। खरीदगी की तिथि से दोनों व्यक्ति उक्त भूमि पर दखलकार होकर अंचल कार्यालय कांके में अपने नाम से दाखिल खारिज भी करा चुके हैं जिसका दाखिल खारिज बाद संख्या 788आर०27/12-13 दिनांक 11-06-2012 ई० है। जिसके अनुसार अंचल कार्यालय कांके में सरकारी मालगुजारी का भुगतान करके अपने नाम से खास रसीद कटाते चले आ रहे हैं जो पंजी 11 के भोल्युम नम्बर V, के पेज नम्बर 66 पर दर्ज है। इस प्रकार विक्रेतागण उक्त भूमि पर शान्तिपूर्ण रूप से दखलकार हैं तथा विक्री करने के लिए एक मात्र अधिकारी हैं जो आज के दिन अपनी खरीदी हुई 34 डिसमिल जमीन क्रेता के साथ विक्री कर रहे हैं।

विक्री वाली भूमि का सब प्लॉट नम्बर मान चित्र में लाल रंग से रंगकर दर्शाया गया है जो इस विक्रयपत्र के साथ सलंग्न है।

—: स द र्भ :-

इस वक्त विक्रेतागण को रूपये की अति आवश्यकता आ पड़ने के कारण विक्रेतागण उपर लिखे जमीन को विक्री करने की बात सोचें एवं विक्री करने की बात लोगों के बीच रखे। बिक्री की बात सुनकर क्रेता उपर लिखे मूल्य मोवलिग 9,35,000/- रूपये में खरीदने के लिय तैयार हुए। जिसे विक्रेतागण सहर्ष स्वीकार किए। अब क्रेता उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखलकार

Mohd Azam

02/03/2013

Imranul Haque

02/03/2013



झारखण्ड JHARKHAND

6 A 531989

होकर वो रहकर परम सुख भोग किया करें। इस पर विक्रेतागण मय उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का हक दावा सरोकार नहीं है और न रहेगा।

अतएव इस विक्रयपत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि :-

1. उक्त कारणों से और उक्त प्रतिफल की राशि मोवलिंग 9,35,000/- रूपये मात्र नगद प्राप्त किये हैं। जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार वो सम्पुष्ट करते हैं। उक्त भू-सम्पत्ति को विक्रेतागण अपने तन मन कि स्वस्थावस्था मे अपने भलाई वो लाभ हित का विचार कर स्वतंत्र मन प्रसन्न चित्त बिना किसी अन्य के डराव, धमकाव, बहलाव, वो फुसलाव के या जोर-जबरदस्ती के सब प्रकार के ऋण भार देन पावना वो बन्धनों से मुक्त सत्यता एवं बैद्धता को पूर्ण रूप एवं ईमानदारी से अभिपुष्ट, सम्पुष्ट, पुनर्पुष्ट एवं प्रत्याभुत विक्रय को हस्तान्तरित किया वो सौंप दिया जो हमेशा के लिए है।
2. यह भी घोषित किया जाता है कि विक्रीगत भूमि सब प्रकार से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्विरोध वो ऋण वगैरह से मुक्त है। यदि बाद भविष्य मे उक्त सम्पत्ति मे विक्रेतागण के स्वत्व हित हक दावा वो दखल मे कोई दोष पाया जाय जिससे खरीददार को उक्त सम्पत्ति या उसके

Moh Faiz A Lou  
02/03/2012

Imranul Haque  
02/03/2012



झारखण्ड JHARKHAND

7 B 318231

अंश से हाथ धोना पड़े या हानि उठानी पड़े तो ऐसी दशा में खरीददार को अधिकार होगा कि ऐसी कुल हानि और क्षति की भरपाई वे विक्रेतागण की अन्य चल अचल सम्पत्ति से पुरा कर लेंगे। इसमें विक्रेतागण अथवा उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का अनुरोध विरोध या आपत्ति नहीं है और न रहेगा साथ ही किसी प्रकार की दावेदारी इस विक्री की गई जमीन पर भविष्य में नहीं रहेगा।

3. अब क्रेता को चाहिए कि उपर लिखे भूमि को अपने अधिकार में लेकर अपने इच्छानुकूल शान्तिपूर्वक पुष्प वाटिका लगायें, कुआं खोदवाए या नल कूप लगायें, चहार दिवारी करायें या कच्चा पक्का मकान बनवायें या जैसा चाहें अपने उपयोग व उभोग में लावें और वंशानुगत इसको भोगकर लाभान्वित होते रहें। इसमें विक्रेतागण या उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का कोई अनुरोध, विरोध या आपत्ति नहीं है और न रहेगा। और यदि कोई करे तो वह सरासर अन्याय व गैर कानूनी होगा।

Moh. Faraz A. Khan  
02/03/2013

Imranul Haque  
02/03/2013



Sch.XIV-F.No. 180V

जिला का नाम उंचा  
 अनुमण्डल का नाम सह  
 अंचल का नाम काँक  
 नाम सर्कल । नाम मौजा मय ओमना  
 थाना वो थाना नम्बर 46

V रसीद मालगुजारी  
 फरद मालगी / खरद पैयती  
 5225054  
 संजीत कुमार

खाता संख्या	खेसरा संख्या
01	308

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

34570	दाद काद वाइरहो 4045 R2M12-13
-------	------------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का। 1931/32

मांग बाबत	सालाना	बकाया				13-14 हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल } (नकदी)	34-00	/				34-00
गुजारी } (भावली)	8-50					8-50
सेस	17-00					17-00
*सूद	17-00					17-00
मुतफरकात	6-80					6-80
मीजान	83-30					83-30

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				13-14 मातालबा हाल	फाजिल	
	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष			
माल } (नकदी)	/				34-00	/	
गुजारी } (भावली)							8-50
सेस							17-00
*सूद							17-00
मुतफरकात							6-80
मीजान अदायकारी					83-30	83-30	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) तिरापी 83-30  
 (2) नाम देहिन्दा - वाइर  
 (3) कुल बकाया X

दस्ताखत वो तारीख अमला तहसील कुनिना  
 22/7/13

NCCF-2010

\*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

Sch.XIV-F.No. 180V

जिला का नाम उंचा  
 अनुमण्डल का नाम सह  
 अंचल का नाम काँडे  
 नाम सर्कल । नाम मौजा मय ओमना  
 थाना वो थाना नम्बर 46

V रसीद मालगुजारी  
 फरद मालवी / फरद रैयती  
 फरद मालवी / फरद रैयती एड्डेकमपर्ट  
 फरद मालवी / फरद रैयती जमाबंदी  
 फरद मालवी / फरद रैयती जमाबंदी  
 फरद मालवी / फरद रैयती जमाबंदी  
 संजीत कुमार 5225054

खाता संख्या	खेसरा संख्या
01	308

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

34570	दाद काद वाइरहो 4045 R2M12-13
-------	------------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का। 1931/32

मांग बाबत	सालाना	बकाया				13-14 हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल } (नकदी)	34-00	/				34-00
गुजारी } (भावली)	8-50					8-50
सेस	17-00					17-00
*सूद	17-00					17-00
मुतफरकात	6-80					6-80
मीजान	83-30					83-30

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				13-14 मातालबा हाल	फाजिल	
	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष			
माल } (नकदी)	/				34-00	/	
गुजारी } (भावली)							8-50
सेस							17-00
*सूद							17-00
मुतफरकात							6-80
मीजान अदायकारी					83-30	83-30	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) तिराफी एम्पली 83-30  
 (2) नाम देहिन्दा - वाइर  
 (3) कुल बकाया X

दस्ताखत वो तारीख अमला तहसील कुनिना  
 22/7/13

NCCF-2010

\*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



झारखण्ड JHARKHAND

8 B 318232

4. यह कि खरीददार विक्रय पत्र निबंधन के पश्चात अपना नाम झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल कार्यालय काँके में अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर साल ब साल खास रसीद प्राप्त किया करें।
5. यह भी विदित हो कि प्रतिफल की कुल राशि 9,35,000/- रुपये मात्र नगद प्राप्त किये हैं। जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार वो सम्पुष्ट करते हैं। अब विक्रय सम्पत्ति के मूल्य मे किसी प्रकार की प्राप्ति विक्रेतागण को खरीददार से शेष नही रहा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है ना ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है ना ही भुदान की जमीन है। यह वन सीमा से बाहर है तथा बी०सी०सी०एल० या ई०सी०सी०एल० का भी जमीन नहीं है।

यह आदिवासी खाते की नहीं है और ना ही आदिवासी से संबंधित है। जमीन सिलिंग से मुक्त है, जमीन मठ, मंदिर, गिरजा, सरना, मसना, हड़गड़ी

Mohdooz Alam  
02/03/2013

Imranul Haque  
02/03/2013

# भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 318233  
9

या पहनई की नहीं है। जमीन भूमि घोटाला, पशुपालन घोटाला से संबंधित नहीं है। यह सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान में बंधक नहीं है।

अतः उपरोक्त बातों को विक्रेतागण पढ़ वो पढ़वाकर समझ एवं बुझ लिये और साक्ष्य स्वरूप इस विक्रय-पत्र को आज अपने हस्ताक्षर से निम्नलिखित गवाहों के समक्ष निष्पादित वो प्रमाणित करते हैं जो कि समय पर काम आवे।

गवाहों का हस्ताक्षर :-

1) अश्वत्थम  
पिता सहादत अक्षरी  
शाह मेहरा  
धाना कदर  
बिला-रानी

2) इरसाफ आलम  
02/03/2013  
पिता अबदुल आजाज

शमि ओमना शाह

पिदोरिया

जिला - राँची

विक्रेतागण का हस्ताक्षर

Imranul Haque

02/03/2013  
मोहर  
मोहर  
मोहर  
मोहर  
मोहर

M. Chandraj Alam  
02/03/2013

मोहर  
मोहर  
मोहर  
मोहर  
मोहर



झारखण्ड JHARKHAND


10 B 318234

क्रेता का हस्ताक्षर

*Sanjay Kumar*

02/03/2013

*Mohd Fariz A Khan*  
02/03/2013



प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में जिन व्यक्ति का छाया चित्र लगाया गया है उनके बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने मेरे द्वारा लिया गया है। *Navin Adv.*

ड्राफ्टकर्ता - *Navin Ranjan Gupta, Adv.*  
*Ran*



*Imranul Haque*  
02/03/2013



निबंधन विभाग, झारखंड  
रांची ग्रामीण क्षेत्र

Token No.13 Token Date: 02/03/2013 14:02:35

Serial/Deed No./Year :1288/1156/2013

Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	<b>Imranul Haque</b> Father/Husband Name:Late Abdul Haque Lari (VENDOR) Baragain Sadar Ranchi		
2	<b>Mahfooz Alam</b> Father/Husband Name:Late Manzoor Alam (VENDOR) Baragain Sadar Ranchi		
3	<b>Eastern Estate Cons.And Devl.Pvt Ltd Thro Managing Director Sanjeev Kumar</b> Father/Husband Name:Late Nand Kishore Prasad (VENDEE) 502 Sharan Vihar Apt.G.D.Mishra Path New Patliputra Patna Bihar		
4	<b>Irshad Alam</b> Father/Husband Name:Abdul Aziz (Identifier) Oyana Pithoria Ranchi		

Book No. I  
Volume 43  
Page 373 To 398  
Deed No 1288/1156  
Year 2013  
Date 02/03/2013 15:53:47

District Sub Registrar

Signature of Operator



निबंधन विभाग, झारखंड  
रांची ग्रामीण क्षेत्र  
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 13

Token Date/Time: 02/03/2013 14:02:35

Document Type	Sale Deed	Presenter	Imranul Haque	Date of Entry	02/03/2013
Presenter' Name & Address	Baragain Sadar Ranchi	DOE		Total Pages	26
Stampable Doc. Value	935000	Stamp Value	37400	Book	1
Document Value	935000	Serial No.		CNO/PNO	
Special Type		Old Serial No.	/		
Remarks / Other Details	Sp=Part.				

## Property Details:

Anchal	Th.No.	Wrd/Hik	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
Kanke	46	7	Oyna	01	308	RSP		R_AGR	34 Decimal	935000

## Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

## Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	UID	Address
1	VENDOR	Imranul Haque	Late Abdul Haque Lari	Business	General	Form 60		Baragain Sadar Ranchi
2	VENDOR	Mahfooz Alam	Late Manzoor Alam	Business	General	Form 60		Baragain Sadar Ranchi
3	VENDEE	Eastern Estate Cons.And Devl.Pvt Ltd Thro Managing Director Sanjeev Kumar	Late Nand Kishore Prasad	Business	General	Aadce1004e		502 Sharan Vihar Apt.G.D.Mishra Path New Patliputra Patna Bihar
4	Identifier	Irshad Alam	Abdul Aziz	Business	General	Not Req.		Oyana Pithoria Ranchi

## Fee Details:

SN	Description	Amount
1	LL	2.50
2	PR	0.94
3	A1	28,050.00
4	SP	390.00
Total		28,443.44

Imranul Haque

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

निबंधन पूर्व सारांश में इंप्ट फार्म के अनुरूप डाटा इंद्रि की गई है।

उपर्युक्त ..... इमरानुल हक, महफुज आलम ..... ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी ..... इरशाद आलम ..... पिता ..... अब्दुल हाजीज ..... ने की।

निवासी ..... सोनता ..... पेशा ..... क्लर्क ..... ने की।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

Alce  
डाटा इंद्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर  
2/3/13



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2/3/13

Imranul Haque

Mahfooz Alam



Sch XIV- F.No. 180v  
रसीद मालगुजारी  
नाम सर्कल । नाम मौजा मय  
थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती Page No. : 197  
नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी Vol. No. : 5  
वो सकुनत नम्बर। Receipt No. : 1472734993

काँके । ओयना । राँची 01 । ईस्टर्न ईस्टेट कंसट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	308	0 एकड़ 34 डिसमील 0 वर्गफीट

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया			हाल (2016-2017)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2014-2015)	
माल (नकदी)	34.00			34.00	34.00
गुजारी (भावली)	8.50			8.50	8.50
सेस	17.00			17.00	17.00
सूद	17.00			17.00	17.00
मुतफरकात	6.80			6.80	6.80
मीजान	83.30			83.30	83.30

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2016-2017)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)		
माल (नकदी)			34.00	34.00	34.00	
गुजारी (भावली)			8.50	8.50	8.50	
सेस			17.00	17.00	17.00	
सूद			17.00	17.00	17.00	
मुतफरकात			6.80	6.80	6.80	
मीजान अदायकारी			83.30	83.30	83.30	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Two Hundred Fourty Nine Rupees and Ninety Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 249.90

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 13-04-2016

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Deed No.  
1288/1156